

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	नई दिल्ली, शनिवार, मई 31—जून 6, 2014 (ज्येष्ठ 10, 1936)
No. 22]	NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31—JUNE 6, 2014 (JYAISTHA 10, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 मार्च 2014

संख्या ए. 22012/1/2014-पीएमई ... कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.9.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/2013-सीएस-1(एस)-II द्वारा उनके नाम अनुभाग अधिकारी की वर्ष 2010 की चयन-सूची (वरीयता कोटा) में शामिल किए जाने के फलस्वरूप तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 6.2.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-32014/3/2013-एडी.1 के अनुपालन में राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को प्रधान मंत्री कार्यालय में नियमित अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं:-

1. श्री उत्तम चन्द
2. श्री डी. एस. गुसाई (30.4.2013 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त)
3. श्री अमर दास

2. उपर्युक्त नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संदर्भाधीन कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 में उल्लिखित न्यायालयीन मामलों में निर्णय के अध्याधीन तथा इनसे जुड़े किसी भी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश के अनुसार होंगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 8 मई 2014

सं. ए-22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक श्री गौरंगलाल दास, आईएफएस (1999) के 3 वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को अगले तीन महीने के लिए अर्थात् 10 अगस्त, 2014 तक बढ़ाते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2014

सं. ए-38014/5/2013-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्री के. के. चुग, निदेशक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 30 सितम्बर, 2013 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-38014/7/2013-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्री आई. पी. काले, अनुभाग अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 31 जनवरी, 2014 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-38014/6/2013-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री एम. पी. वर्गीस, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 अपराहन को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-38014/4/2013-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री वाई. के. वाधवा, अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 अपराहन को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-38014/3/2013-प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्री पी. एस. सरीन, उप सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-38014/11/2013—प्रशा.1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्रीमती उषा रानी शर्मा, निजी सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 28 फरवरी, 2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-32013/05/2013-प्रशा.1—दिनांक 18.07.2013 के का.ज्ञा.सं. 5/11/2011-सीएस.1 (यू) द्वारा सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की वर्ष 2009 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री दीन दयाल माहेश्वरी, अवर सचिव को 18.07.2013 से नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/2014-प्रशा.1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.02.2014 के आदेश संख्या 5/8/2013—सीएस-I (यू) के द्वारा उनकी ग्रेड— I (अवर सचिव) में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री अजीत कुमार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड—3 + 6,600/— रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर दिनांक 12 मार्च, 2014 अपराह्न से अगले आदेश तक अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 13 मई 2014

सं. 11011/45/2013-प्रशि(सप्रप्रसं)---राष्ट्रपति, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली के उप निदेशक (आधारिक पाठ्यक्रम) श्रीमती मनीषा भटनागर का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिनांक 15.03.2014 (पूर्वाह्न) से छ महीने के लिए अथवा उसके स्थान पर नये पदाधिकारी के पद ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

संख्या.क्यू/पीबी-11/6616/30/2012—सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 48—क के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, श्री एन. मुरलीधरन, पीएस, 1 जनवरी, 2014 से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और वे 1 जनवरी, 2014 को विदेश मंत्रालय में निजी सचिव के पद का पदभार त्याग देंगे।

मीना वशिष्ठ, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी—पीआर)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2014

सं. ए-19011/342/2013-स्थापना—वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में प्रधान निजी सचिव श्री राकेश कुमार सभरवाल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 अप्रैल, 2014 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2014

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना---राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री काजल कुमार को दिनांक 23.04.2014 के पूर्वाह्न से जून 30, 2014 तक अथवा अगले आदेश होने तक, पूर्णतः तदर्थ आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी :

- (i) तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 30 जून, 2014 तक या नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी;
- (ii) नियुक्ति-प्राप्त अधिकारी को तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी, जब तक कि चयन सूचियों के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (iv) उपयुक्त तथा सतर्कता दृष्टिकोण से दोष मुक्त पाये जाने वाले अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति की प्रभावी तारीख अपने संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में उनके द्वारा कार्यभार करने की तारीख होगी।

मनीष कुमार, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना---राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता को दिनांक 23.04.2014 के पूर्वाहन से 30 जून, 2014 तक अथवा अगले आदेश होने तक, पूर्णतः तदर्थ आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी :

- (i) तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 30 जून, 2014 तक या नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी;
- (ii) नियुक्ति-प्राप्त अधिकारी को तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी, जब तक कि चयन सूचियों के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (iv) उपयुक्त तथा सतर्कता दृष्टिकोण से दोष मुक्त पाये जाने वाले अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति की प्रभावी तारीख अपने संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में उनके द्वारा कार्यभार करने की तारीख होगी।

मनीष कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2014

सं. ए-38013/1/2012-संवर्ग--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे :-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	अधिवर्षिता की तारीख
1.	नरेन्द्र कुमार	03.04.1954	30.04.2014

अजय कुमार, अवर सचिव

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2014

फा. सं. 18011/31/2013-नमक---राष्ट्रपति, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर के निम्नलिखित नियमित नमक अधीक्षकों को सहायक नमक आयुक्त [समूह 'क', भारतीय नमक सेवा संवर्ग के ग्रेड-1।।] के पद पर वेतन बैंड पी.बी.-3; रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड वेतन रु.6,600/- में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा नमक आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन के अन्तिम निर्णय आने तक, नमक आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन के अन्तिम निर्णय आने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पदोन्नत किया गया पद	पदोन्नति/पदभार ग्रहण करने की तिथि
1.	अरविन्द कुमार तिवारी	सहायक नमक आयुक्त	21.04.2014 (पूर्वा.)
2.	एच.के. अग्रवाल	सहायक नमक आयुक्त	04.04.2014 (पूर्वा.)

2. उपर्युक्त अधिकारी इस नियुक्ति के आधार पर सहायक नमक आयुक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। यह भी कि इस ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई उनकी सेवा की गणना, उस ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्यार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति पात्रता हेतु नहीं की जाएगी।

संजीवनी ताम्हणे, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 अप्रैल 2014

सं. ए-19015/01/2012-स्थापना- राष्ट्रपति, श्रीमती नीहारिका सिंह, उपनिदेशक को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-3 (रु. 15600-39100) ग्रेड वेतन रु. 6600/- सहित दिनांक 24.12.2013 से नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2014

सं.ए-19018/25/2002-स्थापना-I----राष्ट्रपति श्री राम खिलाड़ी, वैज्ञानिक 'एफ', वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 30 अप्रैल, 2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2014

सं. ए-19011/01/2008 मा.सं. II-- राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.03.14 के आदेश सं. 28/3/2013-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में श्री सतीश चन्द्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 86), संयुक्त सचिव की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 24.04.2014 के बाद तीन माह तक के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

यशपाल अरोड़ा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 13 मई 2014

सं. ए-12022/2/2010-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के का.ज्ञा. सं. 3/2/2013-सीएस-II(ए) के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के पीपीएस के वर्ष 2013 की चयन सूची में श्रीमती उमा बिष्ट का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, श्रीमती उमा बिष्ट को दिनांक 9 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपये) और 6600/- रु. के ग्रेड वेतन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 10th March 2014

No.A-22012/1/2014-PME—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 2010 (against Seniority Quota) of Section Officer vide DoPT's OM No.6/2/2013-CS-I(S)-II dated 25.9.2013 and in pursuance of MHA's Office Order No.A-32014/3/2013-Ad.I dated 6.2.2014, the President is pleased to appoint the following officers of CSS cadre of Ministry of Home Affairs as regular Section Officers in the Prime Minister's Office:-

- (i) Shri Uttam Chand
- (ii) Shri D.S. Gusain (Retired on superannuation on 30.4.2013)
- (iii) Shri Amar Dass

2. The above appointments shall be subject to the outcome of the Court cases mentioned in para 10 of DoPT's O.M. under reference and also as per any other order by any Competent Court in any of the connected matters.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 8th May 2014

No.A-22012/1/2014-PME—The President is pleased to extend the tenure on Central Deputation of Shri Gourangalal Das, IFS (1999), Director in the Prime Minister's Office for three months beyond his 3 years tenure, i.e. upto 10th August, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 13th May 2014

No. A-38014/5/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri K. K. Chug, Director, Department of Personnel and Training, retired from Government Service, with effect from the afternoon of 30th September, 2013.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-38014/7/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri I. P. Kale, Section Officer, Department of Personnel and Training, retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-38014/6/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri M. P. Varghese, Sr. PPS, Department of Personnel and Training, retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th November, 2013.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-38014/4/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Y. K. Wadhwa, Under Secretary, Department of Personnel and Training, retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2013.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-38014/3/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri P. S. Sareen, Deputy Secretary, Department of Personnel and Training, retired from Government Service, with effect from the afternoon of 30th September, 2013.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-38014/11/2013-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Usha Rani Sharma, Private Secretary, Department of Personnel and Training, retired from Government Service, with effect from the afternoon of 28th February, 2014.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-32013/05/2013-Ad.I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2009 of Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the Service vide OM No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 18.07.2013, Shri Din Dayal Maheshwari, Under Secretary is appointed as Under Secretary on regular basis w.e.f. 18.07.2013.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-32013/1/2014-Ad.I—Consequent upon his promotion to the Grade-I (Under Secretary) vide DoP&T's Order No. 5/8/2013-CS-I(U) dated 28.02.2014, the President is pleased to appoint Shri Ajit Kumar, as Under Secretary in the Department of Personnel & Training, purely on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from forenoon of 12th March, 2014, and until further orders.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi-110 067, the 13th May 2014

No. 11011/45/2013-Trg. (ISTM)--The President is pleased to extend the deputation tenure of Smt. Manisha Bhatnagar, Deputy Director (Foundational Course), Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi for a period of six months w.e.f. 15.03.2014 (forenoon) or till the new incumbent joins in her place, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd December 2013.

No.Q/PB-II/6616/30/2012--Consequent upon acceptance of his request for Voluntary Retirement under rule 48-A of CCS (Pension) Rules, Shri N. Muralidharan, PS will retire from Government Service w.e.f. 1st January, 2014 and will relinquish charge of the post of PS in the Ministry of External Affairs on 1st January, 2014.

MEENA VASHIST, Administrative Officer (PB-PR)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 30th January 2014

No. A-19011/342/2013-Estt.--On attaining the age of superannuation Shri Rakesh Kumar Sabharwal, Principal Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Financial Services will retire from the Government Service with effect from the afternoon of 30th April, 2014.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 6th May 2014

No. A-32014/1/2004-Estt.--The President is pleased to appoint Shri Kajal Kumar, Assistant of CSS of the Cadre of Ministry of Finance to the Section Officers Grade of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Financial Services with effect from the forenoon of 23.04.2014 and for the period upto 30th June, 2014 or until further orders.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions: -

- (i) The period of ad-hoc promotion would be upto 30th June, 2014 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- (ii) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (iii) Ad-hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available through Select Lists.
- (iv) The effective date of ad-hoc promotion in respect of those found fit and clear from vigilance angle would be the date from which the officer concerned joins duty in Section Officers' Grade in his own cadre.

MANISH KUMAR, Under Secy.

No. A-32014/1/2004-Estt.--The President is pleased to appoint Shri Dinesh Chandra Gupta, Assistant of CSS of the Cadre of Ministry of Finance to the Section Officers Grade of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Financial Services with effect from the forenoon of 23.04.2014 and for the period up to 30th June, 2014 or until further orders.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions: -

- (i) The period of ad-hoc promotion would be upto 30th June, 2014 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- (ii) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (iii) Ad-hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available through Select Lists.
- (iv) The effective date of ad-hoc promotion in respect of those found fit and clear from vigilance angle would be the date from which the officer concerned joins duty in Section Officers' Grade in his own cadre.

MANISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 7th May 2014

No.A-38013/1/2012-Cadre--On attaining the age of superannuation, the following Section Officer of CSS Cadre of Supply Division retires from Government service with effect from the date mentioned against his name:

Name	Date of Birth	Date of Superannuation
Narender Kumar	03.04.1954	30.04.2014

AJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 19th May 2014

F.No.18011/31/2013-Salt--The President is pleased to promote the following regular Superintendents of Salt in the Office of the Salt Commissioner, Jaipur to the post of Assistant Salt Commissioner [Group 'A', Grade-III of Indian Salt Service] in the Pay Band-3; Rs.15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- on *ad hoc* basis w.e.f. the date mentioned against each for a period of one year or till the post is filled on a regular basis or till the final decision of restructuring of Office of the Salt Commissioner or until further orders, whichever is earlier:--

S.No.	Name of the Officer (S/Sh./Smt.)	Promoted to the Post of	Date of Promotion/ Date of Joining
1.	Arvind Kumar Tiwari	Assistant Salt Commissioner	21.04.2014 (FN)
2.	H.K. Agarwal	Assistant Salt Commissioner	04.04.2014 (FN)

2. This appointment will not bestow on these officers a claim for regular appointment. Also the service rendered on *ad hoc* basis in the grade of Assistant Salt Commissioner will not count for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

SANJIVANI TAMHANE, Dy. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi –110016, the 30th April 2014

No. A-19015/01/2012-Estt.--The President is pleased to appoint Smt. Niharika Singh, Deputy Director in a regular basis in the cadre of Central Secretariat Official Language Service in the Pay Band-3 (Rs. 15,600-39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 24.12.2013.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

The 15th May 2014

No. A-19018/25/2002-Estt.--The President is pleased to retire Shri Ram Khilari, Scientist 'F' Department of Scientific and Industrial Research from Government Service on 30.04.2014(AN) on his attaining the age of superannuation.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 5th May 2014

No. A-19011/01/2008-HR-II. The President is pleased to extend the central deputation of Shri Satish Chandra, IAS (AP:86), Joint Secretary in the Department of Fertilizers for a period of three months beyond 24.04.2014 or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DoPT's Order No. 28/3/2013-EO(SM-I) dated 18.03.14.

YASHPAL ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 13th May 2014

No. A-12022/2/2010-Estt.--Consequent upon inclusion of the name of Smt. Uma Bisht in the Select List year 2013 of PPS of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) vide DoP&T Office Memorandum No. 3/2/2013-CS-II(A) dated 30th April, 2014, the President is pleased to appoint Smt. Uma Bisht as Principal Private Secretary of CSSS in the Ministry of Minority Affairs w.e.f. 9th May, 2014 (F/N) in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100/-) plus Grade Pay of Rs.6,600/-.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in